



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-08-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-08-10 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-08-11	2021-08-12	2021-08-13	2021-08-14	2021-08-15
वर्षा (मिमी)	30.0	35.0	40.0	40.0	45.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	24.0	22.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	95	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	65	70	70	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	130	140	270	130	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	6	6	5	2

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में कहीं-कहीं मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0 से 24.0 व 15.0 से 16.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 15 से 21 अगस्त के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम व अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। चेतावनी: आगामी 12 से 14 अगस्त तक पहाड़ों में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज बौछारें और बिजली गिरने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

कोरोना (कोविड-19) की दूसरी लहर व इसके गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.05-0.40 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में हल्की नमी की स्थिति दर्शाता है। किसान भाई समय पर मौसम पूर्वानुमान और जिलेवार कृषि मैसम परामर्श सलाह तथा आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से मेघदूत व दामिनी मोबाईल एप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में कहीं-कहीं मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। आगामी 12 से 14 अगस्त तक पहाड़ों में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज बौछारें और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	घास/ खरपतवार हटाकर खेत के मेड़ों को साफ़ करें। फसल में कृतक कीटों (चूहों आदि) का प्रबंधन करें।
मूली	मूली की अगेती प्रजातियों का प्रतिरोपण करें।
सोयाबीन	फसलो में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
कद्दू	खीरा एवं चप्पन कद्दू के तैयार फलों को बाजार में बिक्री करें।
अमरूद	सदाबहार फल पौधों जैसे आम, अमरूद, नींबू, पपीता, लीची आदि फल पौधों को लगायें। अत्यधिक वर्षा के कारण फल पौधों के थालों में एकत्रित पानी के निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	नवजात बछड़े/बछियों को एक माह की उम्र पर पिपराजीन नामक दवा की खुराक 1 मिली प्रति किग्रा शारीरिक भार के अनुसार दें।